

संपादकीय

खेती का रामभरोसे हाल

हरिशंकर व्यास-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया यूरोप यात्रा में कहा कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के बाद दुनिया का पेट भर रहा है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि हकीकत है। भारत अतिरिक्त अनाज पैदा करने वाला देश है। इस साल फरवरी में भारत ने 111.32 मिलियन टन यानी 11 करोड़ टन से ज्यादा गेहूं की पैदावार का अनुमान लगाया था। लेकिन फरवरी के बाद अगले दो महीने में ही स्थितियां ऐसी बदली की भारत को अपना अनुमान बदलना पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर और पश्चिम भारत के ज्यादातर राज्यों में दो महीने में ऐसी गर्मी पड़ी है कि गेहूं की फसल खराब हो गई। पंजाब और हरियाणा का अनुमान है कि 20 से 50 फीसदी तक फसल खराब हुई है।

असल में जिस समय गेहूं की फसल तैयार हो रही थी उसी समय बेहिसाब गर्मी पड़ने लगी, जिससे पूरी तरह तैयार होने से पहले ही फसल झूलसने लगी। पंजाब के किसान प्रति एकड़ 20-21 क्विंटल गेहूं उपजाते थे। इस साल इसमें बड़ी कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई किसानों की फसल आधी रह गई है। जिन किसानों ने पिछले साल एक एकड़ में 21 क्विंटल गेहूं उपजाया था उनके यहां साढ़े 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हुई है। जिस किसान की पैदावार बहुत अच्छी हुई है उसने भी 18 क्विंटल प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं उपजाया है। इसका नतीजा है कि रिपोर्टेड खरीद के बावजूद पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है। ध्यान रहे पिछले साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए क्विंटल था, जो इस साल 2,020 रुपए क्विंटल है। इसके बावजूद किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पैदावार पिछले साल के मुकाबले 20 से 50 फीसदी तक कम हुई है। मौसम का यह मिजाज एक बार की बात नहीं। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब हर मौसम एक्सट्रिम हो सकता है और हर फसल के उत्पादन पर उसका असर पड़ सकता है।

गेहूं की खरीद में इस साल एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। किसान मंडी में तो जा रहे हैं लेकिन सरकार को बेचने की बजाय निजी व्यापारी को गेहूं बेच रहे हैं क्योंकि वह प्रति क्विंटल पांच से 15 रुपए तक ज्यादा कीमत दे रहा है।

ऐसा लग रहा है कि निजी व्यापारियों ने आइडलियों को अच्छे कमीशन देकर इस बात के लिए तैयार किया है कि वे किसान को सीधे उनके पास ले जाएं। ध्यान रहे पंजाब और हरियाणा में आइडलियों का सिस्टम बहुत व्यवस्थित है और हर किसान किसी न किसी आइडलिया से जुड़ा है। सो, आइडलिया उनको सीधे निजी कारोबारी के यहां ले जा रहा है। सवाल है कि निजी कारोबारी गेहूं की इतनी खरीद क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि दुनिया में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है और ऐसी रूस-यूक्रेन जंग की वजह से हुआ है। ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातक देश हैं। लेकिन जंग की वजह से इनका निर्यात कम हुआ है या ठप्प हुआ है। ऐसे में भारत के कारोबारियों के लिए मौका है। वे ज्यादा मात्रा में गेहूं खरीद रहे हैं और उसका निर्यात कर रहे हैं।


निजी व्यापारियों की आक्रामक खरीद की वजह से सरकारी खरीद कम हुई है। पिछले रविवार तक कुल खरीद 16 मीट्रिक टन से थोड़ी ज्यादा थी, जो पिछले साल इसी समय तक हुई खरीद से 45 फीसदी कम थी। अभी हुई खरीद और बफर स्टॉक दोनों मिला कर एफसीआई के गोदामों में 35 मीट्रिक टन के करीब गेहूं है। राष्ट्रीय खाद्य गारंटी योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत बांटने के लिए इस साल सरकार को 32 मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत होगी। इस साल की पूरी खरीद के बाद भी सरकार का कुल स्टॉक 39 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है, जो कुल जरूरत से थोड़ा ही ज्यादा है। सरकार को अगले साल की खरीद शुरू होने से ठीक पहले तक आठ मीट्रिक टन का बफर स्टॉक भी रखना होगा। तभी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत कई राज्यों में गेहूं की आपूर्ति बंद कर करने वाली है। बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को छोड़ कर बाकी राज्यों में 75 फीसदी आवंटन गेहूं की बजाय चावल का होगा। विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सिर्फ चावल का आवंटन हो सकता है।

मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए दो खतरे दिख रहे हैं। पहला तो पांच-दस रुपए प्रति क्विंटल की कीमत पर निजी कारोबारी अनाज खरीदेंगे तो इससे हर अनाज की सरकारी खरीद प्रभावित होगी। सरकारी खरीद कम होने का सीधा असर यह होगा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कमजोर पड़ेंगी। दूसरा खतरा यह है कि निजी कारोबारी ऊंची कीमत पर अनाज का निर्यात करेंगे और सरकार को भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उनसे ऊंची कीमत पर अनाज की खरीद करनी होगी। इससे खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ेगी और अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होगी। भारत में इस समय यह बहुत प्रचार हो रहा है कि खाद्यान्न निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि खाद्यान्न के आयात में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे खाने-पीने की वस्तुओं के वैश्विक कारोबार में भी संतुलन प्रभावित हुआ है। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 50 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले नौ अरब डॉलर ज्यादा है लेकिन इसी अवधि में भारत ने करीब साढ़े 32 अरब डॉलर की खाने-पीने की चीजों का आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 10 अरब डॉलर ज्यादा है। इसका मतलब है कि जितना निर्यात बढ़ा उससे ज्यादा आयात बढ़ा। आयात में आधे से ज्यादा हिस्सा खाने के तेल का है। आने वाले दिनों में अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भारत में अनाज और खाने-पीने की दूसरी चीजों का संकट गहराएगा।

बहुत जल्द भारत के लिए खेलते हुए दिखेंगे तिलक, बंदौनी और उमरान : रणवीर सिंह

मुम्बई । बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने टाटा आईपीएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स के साथ खास बातचीत में आईपीएल के इस संस्करण में अपने पसंदीदा युवा खिलाड़ियों के बारे में खुलकर चर्चा की। रणवीर ने कहा कि मुम्बई इंडियंस के तिलक वर्मा, लखनऊ सुपर जायंट्स के आयुष बंदौनी और सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक उनके पसंदीदा युवा खिलाड़ी हैं और ये तीनों अपनी प्रतिभा के दम पर जल्द ही भारत के लिए खेलते हुए दिखेंगे।

स्टार स्पोर्ट्स के शो- क्रिकेट लाइव में बतौर मेहमान कमेंटेटर आये रणवीर ने न सिर्फ अपनी एक्सपर्ट कमेंटरी से सबका मन मोहा बल्कि विराट कोहली से लेकर फाफ डु प्लेसिस और तिलक वर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या तक, सबके बारे में खुलकर अपने विचार साझा किए।



सबसे पहले रणवीर ने अपने युवा पसंदीदा खिलाड़ियों-तिलक वर्मा, उमरान मलिक और आयुष बंदौनी के बारे में बात की, जो अपने खेल से इस साल सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। खासतौर पर तिलक, जिन्होंने मुश्किल हालात में टीम के लिए अच्छी और मैचोर इनिंग खेलीं। मैं इन तीनों को बहुत जल्द भारत के लिए खेलता हुआ देख रहा हूँ।

शो के दौरान रणवीर ने कहा कि आईपीएल का रोमांच असीम है। यह न केवल टीमों की बल्कि दर्शकों के धैर्य की भी परीक्षा लेता

है। रणवीर ने कहा, टाटा आईपीएल के रोमांच का कुछ यूँ असर होता है कि आप मैच के दौरान होने वाले उतार-चढ़ाव को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि उसके साथ पूरी तरह घुल-मिलकर असीम आनंद में खो जाते हैं।

रणवीर जब कमेंट्री के लिए आए, तब सनराइजर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर ने अपने धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली का विकेट शून्य के कुल योग पर गंवा दिया था। कप्तान प्लेसिस ने अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया और कुछ बेहद आकर्षक शॉट्स लगाए।

प्लेसिस की आकर्षक बल्लेबाजी को लेकर रणवीर ने कहा, प्लेसिस दुनिया के सबसे रोमांचक बल्लेबाजों में से एक हैं। जब वह अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं, तो उन्हें देखना वाकई सुखद अहसास होता है।

एचडीएफसी बैंक ने पेश की 30 मिनट में कार ऋण की योजना

नई दिल्ली । देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकिंग सेवा प्रदाता एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन (जल्द कार ऋण) सेवा पेश की जिसमें ग्राहकों को आधे घंटे के अंदर कार खरीदने के लिए कर सुविधा मंजूर करने का वादा है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इस उद्योग में एक्सप्रेस कार लोन अपने तरह की पहली सुविधा है, जिसमें कार खरीदारों के लिए एक व्यापक, तेज, अधिक सुविधाजनक और समावेशी डिजिटल यात्रा तैयार की गयी है। मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ गैर-ग्राहकों के लिए पूर्ण रूप से डिजिटल तौर पर कार के लिए ऋण दिया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि यह सुविधा कार खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने और अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में कार बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करेगी। एचडीएफसी बैंक के खुदरा बिक्री विभाग के देश के प्रमुख अतिरिक्त कर्माचारियों ने कहा, डिजिटल नवाचारों में एचडीएफसी बैंक अग्रणी रहा है।

नई दिल्ली । निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग सेवाएं देने वाली एक फर्म के अनुसार रूस-यूक्रेन संघर्ष से विमानन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में तेजी इस समय विमानन सेवा क्षेत्र की दशा में सुधार की प्रक्रिया के सामने बड़ा खतरा बनकर खड़ी हुयी है। इन्वेस्टमेंट इंफोर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया (इकआ) ने जारी एक रिपोर्ट में कहा है, मई 2022 में एटीएफ की कीमतों में वार्षिक आधार पर 89 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। रूस के यूक्रेन पर

विमान ईंधन की आसमान छूती कीमतों से एयरलाइनों को संकट : इकरा

असर डाल सकती है। सामान्य स्थिति बहाल होने पर कुल मिलाकर विमानों में भरी सीटों का अनुपात सुधरेगा जिससे एयरलाइन कंपनियों के राजस्व में सहायता मिलेगी। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 में एटीएफ की कीमतों में तेजी का भारतीय विमानन कंपनियों की आय पर असर होगा। रेटिस एजेंसी ने कहा कि अप्रैल 2022 में घरेलू विमान यातायात कोरोना से पहले के समय की तुलना में पांच प्रतिशत कम रहा पर माह के दौरान घरेलू एयरलाइनों की



हमले के कारण उत्पन्न भू-राजनैतिक तनावों के चलते कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है जिससे व्यवसाय जगत के सामने चुनौतियां पैदा हुयी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एटीएफ की बढ़ती कीमत चालू वित्त वर्ष में उड़ड़यन उद्योग के कारोबार पर बड़ा

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों की संख्या कोरोना से पहले के स्तर को पार कर गयी। घरेलू मार्गों पर विमान यात्रियों की संख्या अप्रैल 2022 में एक साल पहले इसी माह की तुलना में 83 प्रतिशत बढ़कर 1.05 करोड़ रही और यह कोरोना के पूर्व के समय से सिर्फ पांच प्रतिशत कम है। अप्रैल 2019 में यह संख्या 1.1 करोड़ थी। इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 18.5 लाख रही जो कोरोनाकाल से पूर्व की संख्या को पार कर चुकी है।

क्रिप्टोकॉर्सेसी बाजार में हाहाकार, बिटकॉइन में आई जबरदस्त गिरावट

नई दिल्ली । क्रिप्टोकॉर्सेसी मार्केट में पिछले 24 घंटों के दौरान हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि बाजार 8.58 फीसदी गिर चुका था और ग्लोबल क्रिप्टोकॉर्सेसी मार्केट कैप घटकर 1.42 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। इसका 1.5 ट्रिलियन डॉलर के नीचे आना बड़ी बात है। बिटकॉइन के प्राइस में आज 7.82 फीसदी की बड़ी गिरावट आई है। यह कर्सेसी आज \$31,080.91

पर ट्रेड कर रही है। इथेरियम का प्राइस पिछले 24 घंटों में 5.58प्रतिशत गिरकर \$2,330.99 रह गया है। एक सप्ताह में बिटकॉइन 19.26प्रतिशत गिरा है तो इथेरियम 18.17प्रतिशत तक गिर चुका है। 33 फीसदी तक गिरा बिटकॉइन देखा जाए तो 2022 में बिटकॉइन की कीमत काफी गिर चुकी है। फिलहाल आज का स्तर इस साल

का सबसे निचला स्तर है। 1 जनवरी 2022 को यह कर्सेसी 46,726 डॉलर पर थी, मगर आज का भाव \$31,080.91 है। इस लिहाज से यह कर्सेसी इसी साल में अब तक 33 फीसदी गिर चुकी है। इससे पहले 20 अगस्त 2020 को बिटकॉइन ने 30 हजार डॉलर से भी नीचे जाकर 29,807 डॉलर तक ट्रेड किया था। हालांकि उस गिरावट के बाद बिटकॉइन ने जबरदस्त तेजी दिखाई और 8 नवम्बर 2021 को यह 67 हजार डॉलर तक पहुंच गया था।

विलियमसन जल्द ही अपनी छाप छोड़ेंगे : टॉम मूडी

मुम्बई। उन सभी बल्लेबाजों में, जिन्होंने इस सीजन कम से कम 150 गेंदों का सामना किया है, केन विलियमसन 100 से कम के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। 11 पारियों के बाद वह 20 के कम की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरु द्वारा दिए गए 193 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब सनराइजर्स हैदराबाद की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी, विलियमसन बिना कोई गेंद खेले ही रन आउट हो गए। वह करो या मरो के मुकामबले में 67 रनों से हार गए। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें अब अपने बाकी बचे तीनों मुकामबलों में जीत दर्ज करनी होगी। विलियमसन की फॉर्म और उनके बल्लेबाजी स्थान में बदलाव की गुंजाइश को लेकर टीम के मुख्य कोच टॉम मूडी उतने वक्तित दिखाई नहीं देते। उन्हें भरोसा है कि विलियमसन जल्द ही इस सीजन में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। विलियमसन की जगह राहुल त्रिपाठी से पारी की शुरुआत करने



के सवाल पर मूडी ने कहा, हमने इस बारे में सोचा ज़रूर था, लेकिन हमें लगा कि त्रिपाठी, एडन मार्क्रम और निकोलस पून तीन-चार और पांचवें नंबर पर हमारी बल्लेबाजी की अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आज केन ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया, लिहाजा आज के बिनाह पर उनके फॉर्म को लेकर सवाल खड़ा करना कतई उचित नहीं है। हम उन्हें बैक करते हैं, वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इस सीजन में ज़रूर एक पल आएगा जब वह अपनी छाप छोड़ जाएंगे। फॉर्म को लेकर सिर्फ विलियमसन पर ही सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक जिन्होंने अपनी गति से सभी को प्रभावित किया है, वह पिछले तीन मुकामबलों में डाले दस ओवरों में एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं।

आज का राशिफल

मेघ- आज आपकी जिंदगी में होने वाली बदलाव आपके फेवर में रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फेवरबल रहेगा। आप किसी नये कोर्स में एडमिशन लेने का मन बनायेंगे। वृष- आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शाम को जीवनसाथी के साथ मूवी देखने का प्लान बनायेंगे, इससे आपके रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। आज आपके सोचे हुए काम अवश्य ही पूरे होंगे। मिथुन- आज आप अफेयर वित्त्विक के निखारने की कोशिश करेंगे। आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में ज्यादा रहेगी। किसी दोस्त से आपकी लम्बी बात होगी, जिसमें आप आगे की प्लानिंग बनायेंगे। किसी से बात करते समय गुस्से पर कंट्रोल बनाये रखें। कर्क- आज किस्मत के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई भी काम करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। किसी कार्य को थोड़ा जल्दी पूरा करने के लिए प्लान बनायेंगे। अपने को पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए। सिंह- आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। परिवारवालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं घूमने जायेंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आपको मौजूदा गतिविधि में शामिल होने का मौका मिलेगा। कन्या- आज आपको कोई शुभखबर मिलेगी, जिससे परिवार में सके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। किसी खास मित्र के यहां आने जाने का मन बनायेंगे। तुला- आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़ी उत्पन्न में रहेंगे, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जायेगा। शादीशुदा लोगों के लिये दिन बेहतरीन रहने वाला है। अचानक कोई रिश्तेदार घर आयेंगे। ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा अधिक होगा। वृश्चिक- आज आपका पूरा दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आसपास के लोगों से आपका मदद मिलती रहेगी। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। धनु- आज आपका सोचा हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम को देखकर खुश होंगे। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन सफल रहेगा। साथ में कहीं घूमने जायेंगे। अगर आज नौकरी की तलाश में हैं तो आज वो तलाश पूरी हो जायेगी। मकर- आज ऑफिस के काम में आपके सामने थोड़ी चुनौतियां आयेंगी, लेकिन आप किसी सहकर्मी की मदद से उसे पूरा करने में सफल होंगे। आप जीवनसाथी से कोई बात शेर करेंगे, जिससे आप रिलेन्स महसूस करेंगे। कुम्भ- आज किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े-बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन खास है। मीन- आज किसी काम में भागदौड़ थोड़ी अधिक होगी। परिवार के किसी सदस्य से आज आपको कोई अच्छी सलाह मिलेगी। आप अपने खर्चों को लेकर सोच-विचार में डूबे रहेंगे। आपको कोई नया काम सीखने को मिलेगा।

संजय दत्त को इंडस्ट्री में पूरे हुए 41 वर्ष पूरे

अभिनेता संजय दत्त ने बॉलीवुड में खास पहचान बना ली है। एक्टर ने कई हिट मूवीज भी दी है। संजय को हीरो के साथ-साथ विलेन के किताबों में भी खूब पसंद भी करते हैं। अभिनेता के मूवी इंडस्ट्री में 41 साल पूरे हो गए हैं। अभिनेता ने डेब्यू मूवी 'रॉकी की फोटोज शेर कर फैंस का श्रुक्रिया अदा कर दिया है। फोटोज में संजय ब्लैक एंड गोल्डन शिमरी टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता बहुत यंग लग रहे हैं। फोटोज साझा करते हुए संजय ने लिखा- 4 दशक + 1 साल जीवन भर की एक यात्रा भी की है। आप सभी ने मुझे रॉकी के रूप में फिर और अब अधीरा के रूप में जो प्यार



वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो संजय हाल ही में केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाई दिए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कारोबार की। फिल्म में संजय को अधीरा के रोल में मूवी पसंद किया गया। अब संजय बहुत जल्द मूवी पृथ्वीराज में दिखाई देने वाले हैं। इस मूवी में अभिनेता के साथ अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर और सोनू सूद दिखाई देने वाले हैं।

शब्द सामर्थ्य- 68

बाएँ से दायें 1. बात, घटना, माजरा, मुकदमा (उर्दू) 3. अलावा, अतिरिक्त 6. प्रेम, इच्छा 7. मां का बच्चे के प्रति प्रेम 8. गलती, जुर्म, गुनाह, दोष 10. मन, लीन, खुश, प्रसन्न 12. धनुष, समादेश, फौजी टुकड़ी 13. एक कल्पित पत्थर जो लोहे को झूकर सोना बना देता है 16. हिम्मत, साहस, सामर्थ्य 17. बनावटी, अनुकृति, असली का विलोम 18. अबोध, नासमझ 20. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध हरिभक्त देवर्षि 22. गहरा नीला, काला 23. व्याकुल, बेसब्र 24. मन, चिन्त, आदरसूचक तथा सहमति सूचक एक शब्द। ऊपर से नीचे 1. स्वामी, नाथ 2. बेबस, मजबूर, विवश 3. अन्याय, अत्याचार, जुल्म 4. मध्य एशिया का एक देश 5. पुस्तक 9. बहादुर, वीर 11. सैनिक विद्रोह 12. नीच, अधम 12 ए. प्रणाम, झुकना 13. भरण-पोषण करना, परवरिश करना, छोटा झुला, हिंडोला 14. प्रमाण, प्रामाणिक कथन 15. स्वाभाविक ढंक, योग्यता, लियाकत, सभ्यता और शिष्टता, शऊर (उ. 19). बिजली, तड़ित 21. रात में दिखाई न पड़ने का नेत्र संबंधी रोग।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 67 का हल

प	सं	द	सिं	हा	स	न
ख	म	ज	दू	र	का	म
वा	द	क	र	सं	ब	ल
ड	ल	ज्वा	म	स्का	य	
बा	वि	हा	र			
सु	धा	क	र	न	औ	
रं	म	कि	ता	ब	स	
ग	अ	र	सा	हु	ज्ज	त
श	क्ल	न	मि	त	न	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 67 का हल

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

सू-दोक्- 68

2	6	8	3
9	8	3	4
5	2	7	6
8	4	1	3
9			
8	9		1
5		1	2
1	7		2

नियम 1. कुल 81 वर्ग हैं, जिसमें 9 वर्गों का एक खंड बनाता है। 2. हर खाली वर्ग में से 9 के बीच का कोई एक अंक रखा जा सकता है। 3. बाएँ से दायें और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कालम, काल और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

सू-दोक् क्र.67 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5	6	2	
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6